

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, आरा ।

पत्रांक.....338

आरा, दिनांक.....28/02/2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, आरा ।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना ।

विषय:- बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत पथों की
अधियाचना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण
नीति-2018 के तहत पथों के भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार रु0-63.98472
लाख रु0 की आवश्यकता है ।

अतः अनुरोध है कि यथाशीघ्र उक्त राशि को आवंटित करने की कृपा
की जाय, जिससे संवेदक का भुगतान किया जा सकें ।

अनु0 यथोक्त ।

विश्वासभाजन


28/02/24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, आरा ।
28/02/24

Name of Work Division:- Ara

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Sl No.	Batch No	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)			Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requestion against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in km)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	Supplementary Agreement (in Lakh)	5 Years Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM BH AR A-22 0042	RWD Road Daulapur Bridge to Narayanpur Tola Road	10401612013	458/04.07.2022	1.85	77.696	58.40186	5.58286	16.81191	34/3054/MB/D/2022-23	11-Sep-23	----	3187	25mm	5.0	0.000000	0.000000	63.98472	Physically Completed
Total																		63.98472	

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed
2. Up-to date Physical Progress has been uploaded in MIS


 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Ara

FORM GFR 19-A
(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)
Form of utilisation Certification up to month of Feb, 2024

MR Maintenance Policy- 2018
R.W.D. Works Division-Ara (Bhojpur)

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No & Date with Amount (In Rs. Lacs)	Amount Received (In Rs. Lacs)	Particulars
1.	Construction of Rural Road under MR Maint. Policy- 2018	Letter No-140 we Date- 16.10.2023	922269202.00	Certified that out of Rs. 922269202.00 Lacs of grant in aid received during the Year 2023-24 in favour of Executive Engineer, RWD Bihar R.W.D. Ara. A sum of Rs. 905254894.00 Lacs has been utilized for the purpose of MR Maint. Policy- 2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 17014308.00 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
		Total	922269202.00	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised:-

- I. Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- II. Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- III. Construction materials have been tested.
- IV. Measurements have been recorded in the MBS and test check conducted by the Assistant Engineer/Executive Engineer.
- V. All other codal formalities have been observed.

3. Physical progress achieved:

- i. Construction of Road Works.
- ii. Construction of CD Works.

[Signature]
28/02/24
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Ara
[Signature]

ROAD NAME-RVD ROAD DAULATPUR BRIDGE TO NARAYANPUR TOLA ROAD CONTRACTOR NAME-M/S S S CONSTRUCTION PROP KUNAL


Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	TEGORY	Latitude	Longitude	Event
No.			in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
27/02/24	7:51:28	31	0.1	280	0	2700	2810	G	25.62012	84.786516	Normal
27/02/24	7:52:4	31	0.1	280	10.1	2900	3025	G	25.620837	84.786532	Normal
27/02/24	7:52:40	31	0.1	310	10.1	3100	3275	G	25.621665	84.786594	Normal
27/02/24	7:53:0	31	0.1	280	20.2	2800	2977	G	25.622775	84.786622	Normal
27/02/24	7:53:16	31	0.1	280	20.2	2900	3455	G	25.624041	84.786683	Curve
27/02/24	7:53:16	31	0.1	300	20.2	3000	3007	G	25.624437	84.786697	Normal
27/02/24	7:54:40	31	0.1	280	10.1	3400	3598	G	25.624957	84.786745	Normal
27/02/24	7:55:0	31	0.1	290	20.2	2900	3098	G	25.625879	84.786837	Normal
27/02/24	7:55:15	31	0.1	270	20.2	2700	2875	G	25.627146	84.786855	Curve
27/02/24	7:55:15	31	0.1	250	20.2	2500	2654	G	25.628547	84.786915	Normal
27/02/24	7:56:0	31	0.1	310	10.1	2900	3086	G	25.629374	84.786935	Normal
27/02/24	7:56:40	31	0.1	370	10.1	3200	3345	G	25.630111	84.786957	Normal
27/02/24	7:57:0	31	0.1	280	20.2	2800	2967	G	25.631225	84.786626	Normal
27/02/24	7:57:18	31	0.1	300	20.2	2900	3085	G	25.632134	84.786705	Normal
27/02/24	7:57:18	31	0.1	240	20.2	3300	3467	G	25.633424	84.786837	Normal
27/02/24	7:58:0	31	0.1	260	10.1	2600	2789	G	25.634238	84.786863	Curve
27/02/24	7:58:40	31	0.1	310	10.1	2800	2987	G	25.635324	84.786837	Normal
27/02/24	7:59:0	31	0.1	280	20.2	3400	3525	G	25.636438	84.786883	Normal
27/02/24	7:59:15	31	0.1	340	20.2	3200	3345	G	25.635243	84.786413	Normal
TOTAL							59423				
AVERAGE							3127				

Reman
28.2.24

Mangh
28/02/24

SN
28/02/24
et

File : C:\Users\BRDA 52\Desktop\jixlsx Section No. :31. Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.969 \cdot X + 74.60$
 Name of Customer : M/SSS Construction prop kunal. Name of Work/ Road : RWD Road Daulatpur Bridge to



Signature
 28/02/24

Signature
 28/02/24


Signature
 28/02/24
 EE

प्रमाण पत्र


शीर्ष:- 3054 एम0आर0 (बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण 2018)

योजना:- RWD Road Daulatpur Bridge to Narayanpur Tola Road


1. मापी पुस्त पर इस आशय का प्रमाण पत्र दर्ज है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है।
2. कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता, 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।


28.12.24

कनीय अभियंता
कार्य प्रशाखा, कोइलवर


28/02/24

सहायक अभियंता
कार्य अवर प्रमंडल, कोइलवर


28.12.24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, आरा